

(118)

पर्य का नाम:- Sikta to Surajpur

F.D.R.

Schedule XLV-Form No. 134

कार्यपालक अधिकारी
ग्राम पंचायत निधान कर्त्ता उपचालन

DIVISION

प्रांतः - लिहटा

SUB-DIVISION

M.B.N. 1586/2021-22

MEASUREMENT BOOK

प्रमाणित किया जाता है। इस
मापी पुस्तक में मशीन से अंकित
मात्रों 1 व 100 तक कुल 100
पृष्ठ हैं, जिसे सहायता द्वारा
ग्रामीण काम नियन्त्रण, काम और
प्रबन्धन विभाग के नाम से किया
किया जाता है।

(B.W. 29/7/21)

कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण काम नियन्त्रण, काम और प्रबन्धन
विभाग

29/7/21

Re-issued to sri Chandrakar

Prasad J.E. work section Sikta

(Signature)
29/7/21

ASSISTANT ENGINEER
Rural Works Department
Vidarbha Sub-Division, Sikta

Sch. XLV - Form No. 134

कार्यपालक अधिकारी
ग्रामीण काम नियन्त्रण, काम और प्रबन्धन
विभाग

DIVISION

Firoza
विभाग

SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

1586

2021-22

Name of officer _____

Date of first entry _____

Name of Work—
Situation of Work—
Agency by which work is executed—
Date of Measurement—
No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement
of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
<u>Reorder measurement</u>						
<u>a) Name of work: Restoration</u>						
<u>of road from Sista to Surajpur</u>						
<u>under PDR.</u>						
<u>b) Authority : G.E.Nagar Nigam</u>						
<u>c) Agency : Departmental</u>						
<u>d) Date of entry 28/09/2021</u>						
<u>Details of measurement</u>						
<u>1) Cost of Embankment with</u>						
<u>slab foundation etc</u>						
<u>12 x 30.00 x 7.00 x 9.50 = 5250m²</u>						
<u>12 x 28.00 x 7.00 x 3.10 = 651.00m²</u>						
<u>12 x 28.00 x 7.00 x 2.70 = 483.62m²</u>						
<u>1609.62m²</u>						
<u>Less cost of 10P culvert → 2) 33.93 m²</u>						
<u>1575.69m²</u>						
<u>2) P/W and laying Hump</u>						
<u>This place</u>						
<u>12 x 2.50 m</u>						
<u>30.00 m</u>						

Continuation

Chand
28/09/2021

Rao
28/09/2021
A.R.

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
<u>Measurement</u>						
05/10/2021						
① laying lower bath on Refrigerated surface →						
$1 \times 30.10 \times 4.05 \times 0.75 = 91.13 \text{ m}^2$						
$1 \times 28.10 \times 4.05 \times 0.70 = 79.38 \text{ m}^2$						
check $1 \times 25.10 \times 4.05 \times 0.75 = 75.94 \text{ m}^2$						
AE $1 \times 22.10 \times 4.05 \times 0.70 = 62.37 \text{ m}^2$						
$1 \times 26.10 \times 4.05 \times 0.60 = 58.22 \text{ m}^2$						
$1 \times 14.10 \times 4.05 \times 0.60 = 34.02 \text{ m}^2$						

401.10m²~~less 6% of curved area~~ ~~33.93m²~~367.22m²P. Chauhan

05/10/2021

R.S.B.

05/10/2021

A.R.

JES

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1st on AIR BM					
ABSTRACT OF COST					
1 Name of Work: Restoration of Road from Sikkim to Gangtok under FDP.					
2 Authorised: Muktangan					
3 Agency: Department					
4 Date of Entry: 26/11/2001					
5					
6) Cost of 8 mms width brick foot wide page = 01					
1575.69 m ² @ 134.37/m — 211662.20					
7) P.V. of laying impermeable page = 01					
30.00m @ 6369.61/m — 191088.20					
8) Laying brick bats on page surface P = 02					
367.22 m ² @ 214.8153/m — 86780.00					
					11 89530.20
Add @ 12% C.R.M — → 1 42744.00					
Add @ 1% L.C.M — → 1189.50					
Add for loss — → 70 73768.00					

Continuation

14179372

(Signature)

26/11/01

C.P.

(Signature) 26/11/01